



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 819 राँची, सोमवार

13 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-141/2017-1190 (HRMS)-- श्री गिरिजानंद किस्कू, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GIRIJANAND KISKU JHK/JAS/273	श्री गिरिजानंद किस्कू, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है.

विवरण:

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गिरिजानन्द किस्कू, झां.प्र.से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरुद्ध दलुडीह पंचायत की योजनाओं में बिना कार्य कराये राशि की निकासी करने, नियमानुसार अभिलेख का संधारण नहीं करने, निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन कर सरकारी राशि गबन करने की नीयत से कार्यवाई करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1550/गो०, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 द्वारा गठित प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री किस्कू के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री किस्कू को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री किस्कू द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा.प्र.से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री किस्कू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
